

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर**

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स:- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट:-www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/20657-689

दिनांक :- 17/05/19

**जिला कलेक्टर**

**समस्त राजस्थान।**

**विषय:-** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) रूल्स 2018, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की क्रियान्विति के क्रम में माननीय एनजीटी द्वारा वाद संख्या OA 606/2018 में पारित आदेशों की पालना में।

जैसा कि आपको विदित है भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 जारी किये गये हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के नियम 12 के अनुसार जिला कलेक्टर के निम्न कर्तव्य निर्धारित हैं।

- a. Facilitate Identification and Allocation of suitable land for setting up processing and disposal facilities to local authorities in his district.
- b. Review the performance of Local bodies at least once in a quarter on waste segregation, processing, treatment and disposal and corrective measures.

इसी क्रम में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियां (Bye Laws) 2019 जारी की गई हैं, जिसमें यूजर चार्ज एवं जुर्माना का निर्धारण किया गया है जिसकी पालना में प्रत्येक निकाय को आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

साथ ही भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट(अमेंडमेंट) रूल्स 2018 जारी किये गये हैं तथा पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 21.07.2010 की पालना में जिला कलेक्टर एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्लास्टिक कैंरी बैग की जब्ती व अन्य कार्यवाही की जानी है।

माननीय एनजीटी में वाद संख्या 606/2018 के तहत दिनांक 16.04.2019 को पारित आदेशों की पालना सभी नगरीय निकायों द्वारा की जानी है। माननीय एनजीटी द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जा रही है। चयनित मॉडल सिटी जयपुर, उदयपुर एवं सीकर तथा मॉडल टाउन डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं पुष्कर में माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेशों की पालना आगामी 6 माह में की जानी है। राज्य में माननीय एनजीटी के निर्देशों की पालना करवाते हुये पालना रिपोर्ट आगामी पेशी 24.10.2019 को श्रीमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा माननीय एनजीटी में प्रस्तुत की जावेगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) रूल्स 2018, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की क्रियान्विति के लिए जिला कलेक्टर

स्तर पर निर्धारित कार्यवाही करवाते हुए उसकी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को प्रस्तुत की जानी है। इस क्रम में शीघ्र ही श्रीमान मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से क्रियान्विति 29.05.2019 की समीक्षा की जावेगी।

अतः माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेशों की पालना में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पूर्व संबंधित जिला मुख्यालय की निकाय के आयुक्त तथा जिले के अन्य निकायों के आयुक्त/अधिकाधिकारी की बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा करावें तथा पालना रिपोर्ट पर्यावरण विभाग/स्वायत्त शासन विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- 1. माननीय एनजीटी आदेश दिनांक 16.04.2019 की प्रति।

2. प्रफॉरमेंस ऑडिट के 18 बिन्दुओं की प्रति।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की प्रति MoEF & CC की साईट पर उपलब्ध है।

17/5

(सिद्धार्थ महाजन)

शासन सचिव

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/20630-34/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 17/05/19

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. मुख्य अभियंता, निदेशालय।
9. उपनिदेशक, क्षेत्रीय(समस्त)।
10. आयुक्त, नगर निगम/परिषद, जिला मुख्यालय को भेजकर लेख है कि जिला कलेक्टर स्तर पर बैठक आयोजित करवाने की समस्त कार्यवाही संपादित करें।
11. आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त को भेजकर लेख है कि बैठक में पालना रिपोर्ट सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Solid Waste Management Parameters for NGT 606/2018 and Compliance Report				
Sr. No	Key Parameters/ Indicators and their Timeline in MSW Rules	Description of Parameters/Indicators for physical evaluation	Action Taken	Time Line
1	Door to Door Collection	Door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other nonresidential premises. Transportation in covered vehicles to processing or disposal facilities	Door to Door, Collection is being done in each city of Rajasthan. Out of 5399 wards, 5350 wards (99.09%) covered under Door-to-Door collection. Rate Contract has been finalized for Door -to-Door Auto tipper with compartments. All vehicles are Covered with Tirpal.	June 2019
2	Source Segregation	Segregation of waste by households into Biodegradable, non-biodegradable, domestic hazardous	Green- Blue Dustbin distributed by ULB's to households for segregation of wet and dry waste separately. IEC and Capacity Building are being done for public awareness about Segregation of Waste through hoarding, FM Radio, Unipole and RSRTC Bus and Pamphlet.	September 2019
3.	Litter Bins & Waste Storage Bins	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation of Twin-bin/ segregated litter bins in commercial &amp; public areas at every 50-100 meters.</li> <li>Installation of Waste storage bins in strategic locations across the city, as per requirement (Unless Binless)</li> <li>Elimination of Garbage Vulnerable Points.</li> </ul>	Twin bin has been installed in market area/commercial area as per requirement under Swachh Bharat Mission by all ULB's.	Compliance Done.
4	Transfer Stations	Installation of Transfer Stations instead of secondary storage bins in cities with population above 5 lakhs.	Places of transfer stations have been identifies in big cities (> 5Lacs). Traditional TS (6 Nos) in Jaipur are operational. Design of TS will be prepared in next 3 Months and then tendering process will take further 3 months from available funds under SBM & ULB's Sources.	Dec 2019



5	Separate Transportation	Compartmentalization of vehicles for the collection of different fractions of waste. Use of GPS in collection and transportation vehicles to be made mandatory at least in cities with population above 5 lakh along with the publication of route map.	Directions have been issued to all ULB's for use of special designed vehicles having two compartments for segregation of waste and installing GPS for effective monitoring. In major cities (Municipal Corporations) route map for collection of waste prepared. GPS installed in waste collecting vehicles. Procuring of twin compartment auto tippers are being done by ULB's for separate transportation of waste.	September 2019
6.	Public Sweeping	All public and commercial areas to have twice-daily sweeping, including night sweeping and residential areas to have daily sweeping.	All ULB's are Doing Public Sweeping and night sweeping at market area. For ULB's more than 20,000 new sweepers have been recruited in August 2018.	Already Implemented.
7.	Waste Processing Wet Waste, Dry Waste, MRF Facility	Separate space for segregation, storage, decentralised processing of solid waste to be demarcated Establishing systems for home/decentralised and centralized composting Setting up of MRF Facilities.	40 Centralized/Decentralized Composting and RDF Plants are running that are treating the 869.17. TPD. 19 Centralized Compost and RDF Plant are Under Establishment. After Construction of these plants 2903 TPD will be processed. land has been identified by 169 ULB's for processing and disposal of waste. For 22 ULB's letter was sent to DM for land allotment. 29 Town Having Population greater than 1 Lacs the Processing of Waste will be started after Completion of SWM plants. However, the Direction issued to start Composting in house, Gardens, Sabji Mandi and pit composting, composting by using compost machines. Rate Contract finalized Composting Machines (50Kg, 100Kg, 500Kg and 1000 Kg). Direction issued to ULB's for procurement of these machines as per their requirement and fund availability. Direction issued for setting of MRF and MRF are being setting up by ULB's.	Time Line of processing of each plant given in Solid waste Management Overview MRF facility will be developed by Dec 2019

8	Scientific Landfill	Setting up common or regional sanitary landfills by all local bodies for the disposal of permitted waste under the rules Systems for the treatment of legacy waste to be established.	1st Priority given to 29 Towns of greater than 1 lacs population. Bidders finalized for establishment of processing plant and SLF in 19 towns. For Rest 8 Town direction issued for tendering. Udaipur Municipal Corporation has started the work of Capping of Solid Waste Management.	Time line of Disposal of each plant given attached at Annexure -1A
9	C&D Waste	Ensure separate storage, collection and transportation of construction and demolition wastes.	Direction for development of collection centre for C&D waste issued to Population greater than 1 lacs towns by using tipper/ tractor. C&D waste being transported for reuse/ recycle where required. However, Tender for processing of C&D Waste has issued by Jaipur Nagar Nigam and after its finalization, the process of establishing C&D waste plant will be started.	Dec 2019
10	Plastic Waste	Implementation of ban on plastics below <50 microns thickness and single use plastics.	In Compliance of Plastic waste management Rule 2016. Directions issued to all ULB's for compliance of rules. All plastic carry bag banned in Rajasthan. In compliance of these, as on 19/03/2019 total Plastic carry bag seized by ULB's is 79000 Kg with the fine of Rs. 19928269 as per the report submitted by ULB's.	Already Implemented.
11	Bulk Waste Generators (BWGs)	Bulk waste generators to set up decentralized waste processing facilities as per SWM Rules, 2016.	Bulk waste generator identified by ULB. Decentralized processing should be done by BWG at their premises. Regular Monitoring is being done by ULB's.	In Progress
12	RDF	Mandatory arrangements have to be made by cement plants to collect and use RDF, from the RDF plants, located within 200 kms.	350 TPD RDF plant is working in Jaipur and rest 19 Plants are in pipeline for composting and RDF. Nimbahera, Chittorgarh and Pratargarh are Sending their RDF to nearby cement plant. As per RDF guideline of MOHUA all cement plants have to use RDF. (Guidelines Attached) Direction have been issued to all ULB's .	In Progress.

13	Preventing solid waste from entering into water bodies	Installation of suitable mechanisms such as screen mesh, grill, nets, etc. in water bodies such as nallahs, drains, to arrest solid waste from entering into water bodies.	Through Door-to-Door Collection, minimal unattained solid waste needs to be stopped from entering in water bodies. No landfill site is near water bodies.	Already Compliance
14	User Fees	Waste Generators paying user fee for solid waste management, as specified in the bye-laws of the local bodies.	As per section, 227 of Rajasthan Municipality act 2009 Provision for collection of charges for handling of solid waste exits. Accordingly, Notification issued in 2015, which is being followed by ULBs. As per the provision of SWM Rules 2016 final bye laws are under process.	Already Compliance.
15	Penalty provision	Prescribe criteria for levying of spot fine for persons who litters or fails to comply with the provisions of these rules and delegate powers to officers or local bodies to levy spot fines as per the byelaws framed.	As per section, 227 of Rajasthan Municipality act 2009 Provision for collection of charges for handling of solid waste exits. Accordingly, Notification issued in 2015, which is being followed by ULBs. As per the provision of SWM Rules 2016 final bye laws are under process.	Already Compliance.
16	Notification of Bye Laws	Frame bye-laws incorporating the provisions of MSW Rules, 2016 and Ensuring timely implementation.	Notification issued on dated 11.03.2015 for Byelaws. As per the provision of SWM Rules 2016 final bye laws are under process.	March 2019
17	Citizen Grievance Redressal	Resolution of complaints on Swachhata App within SLA.	ULB's are regularly resolving complaints on <ul style="list-style-type: none"> <li>• ULB Helpline Number</li> <li>• Central Helpline No (18001806127)</li> <li>• Swachhta App</li> <li>• Samark Portal</li> </ul>	Already Compliance.
18	Monitoring mechanism	States/ULBs to update month wise Targets/action plans on the online MIS.	ULBs are updating the details on SBM MIS Portal. Provision taken up in Bye-laws for monitoring mechanism.	In Progress